

**प्रेस नोट दि० 30.06.2022**

**थाना प्रेमनगर जनपद बरेली ।**

**थाना प्रेमनगर क्षेत्रान्तर्गत दि० 28.06.2022 को एक बाइक पर दो सवार अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अलग-अलग स्थानों से महिलाओं के गले की चैन लूट कर ले जाने वाले अभियुक्त अशोक को किया गिरफ्तार ।**

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के कुशल पर्यवेक्षण एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम महोदय के कुशल नेतृत्व में थाना प्रेमनगर पुलिस टीम द्वारा दि० 28.06.2022 को पंजीकृत मु०अ०स० 224/2022 धारा 392 भादवि व मु०अ०स० 225/2022 धारा 392 भादवि बनाम एक बाइक पर दो अज्ञात सवार व्यक्तियों द्वारा थाना क्षेत्र में अलग-अलग दो स्थानों पर सुबह टहलने वाली महिलाओं के गले की चैन लूट कर ले जाने वाले अभियुक्तगणों में से आज दिनांक 30.06.2022 को मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त अशोक पुत्र बाबूराम निवासी डलाव वाली मठिया बिहारीपुर थाना कोतवाली जिला बरेली को डेलापीर तिराहा के सरकारी तालाब के पास से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के कब्जे से लूटी गयी चैन व नगद 1,930/- रुपये बरामद किये गये । गिरफ्तार अभियुक्त से दूसरे अभियुक्त व बाइक के बारे में जानकारी की गयी तो बताया कि उसका नाम इमरान उर्फ इरफान पुत्र नामालूम निवासी नामालूम है । अभियुक्त को गिरफ्तार कर बरामदगी के आधार पर धारा 411 आईपीसी की बढोत्तरी कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की गयी है ।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-** अशोक पुत्र बाबूराम निवासी डलाव वाली मठिया बिहारीपुर थाना कोतवाली जिला बरेली ।

**वांछित अभियुक्त का नाम:-** इमरान उर्फ इरफान पुत्र नामालूम निवासी नामालूम ।

**बरामदगी का विवरण:-** एक अदद सोने की चैन, 1,930/- रुपये नगद ।

**अभियुक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग का विवरण:-**

1. मु०अ०स० 224/2022 धारा 392/411 भादवि
2. मु०अ०स० 225/2022 धारा 392/411 भादवि

**गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-**

1. उ०नि० श्री बलवीर सिंह थाना प्रेमनगर जनपद बरेली ।
2. उ०नि० श्री ओम कुमार थाना प्रेमनगर जनपद बरेली ।
3. का० 1939 गौरव थाना प्रेमनगर जनपद बरेली ।
4. का० 3004 रविन्द्र थाना प्रेमनगर जनपद बरेली ।
5. का० 1649 हिमांशु थाना प्रेमनगर जनपद बरेली ।
6. का० 3662 सचिन थाना प्रेमनगर जनपद बरेली ।
7. का० 3753 विष्णु थाना प्रेमनगर जनपद बरेली ।